



100385

GN-086

I Semester B.Com. Examination, December - 2019
(CBCS) (Freshers) (2019-20 and Onwards)

LANGUAGE HINDI - I

Gadya, Vanijya Patra Aur Anuvad

Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

10x1=10

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए :

- (a) सृजन की विलक्षण शक्ति किस में होती है?
- (b) किसके अनुसार संसार के सब क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है?
- (c) ब्रिटिश साम्राज्य का बड़ा कुष्ठाश्रम कहाँ था?
- (d) किसने खुद को हिमालयवासी कहा था?
- (e) रनवीर की पत्नी का नाम क्या है?
- (f) प्रमोद के अनुसार हर लड़कियों का सपना क्या होता है?
- (g) किस परम्परा के नवनाथों में अल्लम प्रभु की गिनती होती है?
- (h) कौन-सी गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है?
- (i) सिंधु घाटी की सभ्यता किसके द्वारा निर्मित सभ्यता है?
- (j) 'बहू की विदा' एकांकी के रचनाकार कौन हैं?

LIBRARY
Surana College
No. 16, South End Road
BANGALORE - 560 004

II. किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए :

2x6=12

- (a) "जो अतीत है उस पर सोचना तो मूर्खों का काम है। जो भावी है, आगमी है उस पर विचारो। हम अपने प्रवचनों में सदा कहते आये हैं, जीवन क्षणिक है।"
- (b) 'कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह, ममता और प्यार बेचनेवालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी ?
- (c) संस्कृति वह जीवन शक्ति है जो व्यक्ति को समष्टि से, जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से विरासत में मिलती है और जिसे आनेवाली पीढ़ियाँ निरन्तर वैशिष्ट्य प्रदान करती रहती है।
- (d) 'अपने आँगन में सत्य के खम्भे गाड़कर ईमानदारी की छाँव डालो कि दीन, दलित, त्रस्त, अभिशप्त छाँह पा सकें।

P.T.O.



III. 'मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार ही असल तीर्थयात्रा है।' इस कथन का समर्थन कीजिए।

1x12=12

अथवा

बसवण्णा के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालिए।

IV. किसी एक पर टिप्पणी लिखिए :

1x6=6

(a) प्रदूषण की समस्याएँ।

(b) मन-शक्ति और विचार।

V. कोई दो पत्र लिखिए :

2x10=20

(a) 'सुरत साड़ी हाऊस' राजाराम मोहनराय मार्ग सूरत, को क्रय-आदेश देते हुए एक पत्र लिखिए।

(b) भावना इम्पोरियम, कोर्ट रोड धारवाड़ की ओर से प्राप्त माल का भुगतान 'मनोज टेक्सटाईल', गाँधीनगर, बेंगलूरु ने अभी तक नहीं किया है। भुगतान का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए।

(c) संदर्भ के लिए दो प्रतिष्ठानों के नाम भेजने का अनुरोध करते हुए 'पंकज प्रकाशन' नेताजी मार्ग, नई-दिल्ली की ओर से एक पत्र गायत्री पुस्तक मंदिर, अशोक रोड चेन्नई को लिखिए।

VI. हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

10x1=10

(a) Authorized

(b) Binder

(c) Calculation

(d) Dependent

(e) Error

(f) Interim relief

(g) Justification

(h) Known facts

(i) Legal Action

(j) Discharge of Duty